

ताजा खबरें

साहित्य मंच में तर्जेंद्र सिंह लूथरा ने प्रस्तुत की अपनी कविताएं

By Virat baibhav | Publish Date: 29/7/2025 7:53:35 PM



नई दिल्ली। साहित्य अकादेमी के साहित्य मंच कार्यक्रम में हिंदी कवि तर्जेंद्र सिंह लूथरा के एकल काव्य पाठ का आयोजन किया गया। लूथरा ने अपने कविताओं के साथ ही अपनी रचना प्रक्रिया को साझा किया। उन्होंने बताया कि सन 2008 में घटित 26/11 घटना ने उनको विचलित किया और तब उन्होंने अपनी जो कविता लिखी उसे काफी पसंद किया गया और सराहा गया और तभी से उनका कविता लिखना नियमित हुआ। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि कवि वह महत्त्वपूर्ण होता है जो समसामयिक घटनाओं से भी उन तत्वों को चुनकर उस वेदना को पकड़ता है, जो वर्षों बाद भी लोगों को अपने समय की सामयिकता से जोड़ती है। उन्होंने अपने कविता-संग्रह एक नया ईश्वर के साथ ही शीघ्र ही प्रकाशित होने वाले अपने तीसरे कविता-संग्रह प्लेटफॉर्म से आती आवाजों से भी अनेक कविताएं सुनाई। उनकी कविताओं में कुछ छोटी कविताएं और कुछ लंबी कविताएं भी थीं। इन कविताओं के स्वर जहां हमारी नियति और कर्मयोग के बीच के द्वंद्व को व्यक्त करने वाले थे, वहीं आम आदमी की परेशानियों को भी प्रस्तुत करने वाले थे। उनके द्वारा सुनाई गई कुछ कविताओं के शीर्षक थे। तुम यह सब कर लेते हो, अरबी घोड़ा, ऐसे ही सोएंगे हम, साहस, जादू वाली शर्ट, उदास है मशीन एवं आधी रात को कविता। अंत में श्रोताओं के आग्रह पर उन्होंने लोकप्रिय कविता अस्सी घाट का बासुरी वाला भी सुनाई। श्रोताओं के सवालों के जवाब देते हुए बताया कि उनकी अधिकतर कविताएं सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं। जब भी कोई घटना उन्हें अंदर तक झकझोरती है तो वह उसे अपने शब्दों में दर्ज कर लेते हैं। कार्यक्रम का संचालन अकादेमी के उपसचिव देवेंद्र कुमार देवेश द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अनेक भाषाओं के कविए लेखक और साहित्य प्रेमी उपस्थित थे।